

परिसरीय समाचार

सुश्री सुषमा ताइशे, संयुक्त सचिव, प.ऊ.वि. ने माननीय अध्यक्ष डॉ. वी.पी. वेणुगोपालन, प.ऊ.शि.सं. एवं श्री पी. लाहिड़ी,



सचिव, प.ऊ.शि.सं. के साथ 8 अप्रैल, 2022 को महाविद्यालय के विभिन्न बुनियादी ढांचे आयामों के गुणात्मक और मात्रात्मक कोष का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु प.ऊ.क.म. मुंबई का दौरा किया।

अच्छी तरह से अनुरक्षित प्रयोगशालाओं को सर्वोत्तम उपकरणों से सुसज्जित देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में अच्छी तरह से आज तक संरक्षित कुछ जीवाश्म नमूनों को देखकर वे अचंभित थी। महोदया तैशेते और डॉ. वेणुगोपालन न केवल एक दुर्लभ ग्लोसोप्टेरिस बल्कि ट्रिलोबाइट जीवाश्म के सबसे दुर्लभ 520 मिलियन

वर्ष पुराने मॉडल को देखकर प्रसन्न हुए।

पहले अभियान की शानदार प्रतिक्रिया और शानदार सफलता के परिणामस्वरूप, हितधारकों से अत्यधिक अनुरोध आने के परिणामस्वरूप परिसर में कोविड निवारणार्थ दूसरा टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया । इस अभियान के माध्यम से लगभग 200 विद्यार्थियों और अन्य लाभार्थियों को कोविशील्ड जैब के साथ सफलतापूर्वक टीका लगाया गया। यहाँ ध्यातव्य है कि पहला टीकाकरण अभियान बीएमसी द्वारा दिनांक 25-02-2022 को सुचारु रूप से आयोजित किया गया।

14-04-2022 राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण 30 अप्रैल, 2022 को एससी-एसटी सेल प.ऊ.शि.सं. मुंबई द्वारा प.ऊ.क.म. के होमी भाभा सभागार में भारतीय संविधान के जनक दिलत प्रतीक, बहुश्रुत, सामाजिक न्याय के प्रबल अधिवक्ता और कार्यकर्ता बाबासाहेब भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 131वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जयंती मनाते हुए सैकड़ों सदस्यों द्वारा श्रद्धांजिल अर्पित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भा.प.अ.केन्द्र के 13वें निदेशक डॉ. अजीत कुमार मोहंती और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पी. लाहिरी, सचिव, प.ऊ.शि.सं. उपस्थित हुए।

महाविद्यालय के सभी कर्मचारी व FYJC के विद्यार्थियों ने 2 मई, 2022 को 12वीं कक्षा के पूर्व विद्यार्थियों को नई यात्रा में बड़ी सफलता की कामना के साथ भावुक भाव के साथ विदाई दी। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा प्रत्येक पूर्व विद्यार्थियों को शुभकामना संदेशपत्र दिया।



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2022 को 'एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण' के विषय पर मनाने के लिए, डॉ आनंद कुमार, प्राचार्य, प.ऊ.क.म. और श्री ज्ञानेश्वर आर मोहरीर के कुशल मार्गदर्शन में क.म. के लगभग साठ छात्र, उपप्राचार्य, प.ऊ.क.म. ने 11 और 12 मई, 2022 को डीएई कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक प्रदर्शनी-सह-प्रश्लोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। डॉ धनुरधर झा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिन्दी दोनों दिनों छात्रों के साथ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे।



प.ऊ.क.म. के 2012-2014 सत्र की फैशन और डिजाइन उत्साही पूर्व छात्रा भावना गुंदलपल्ली ने 12वी कक्षा के बाद निफ्ट, मुंबई के माध्यम से अपना भविष्य सुनिश्चित किया। इन्होंने 26 जून, 2022 को प.ऊ.क.म. के वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। वर्तमान विद्यार्थियों को फैशन के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बनाने हेतु नयी जानकारी मिली।

डॉ. ए.के. त्यागी, निदेशक, रसायन विज्ञान समूह, भा.प.अ.केन्द्र द्वारा पद त्याग करने के बाद श्री सी.जी. क-हाडकर, निदेशक, रिएक्टर समूह, भा.प.अ.केन्द्र ने 03/06/2022 को प.ऊ.शि.सं. के विद्यालयों/क.म. के स्थानीय प्रबन्धन सिमित के नए अध्यक्ष के रूप में प.ऊ.क.म. में अवस्थित स्थानीय प्रबन्धन सिमित कार्यालय का कार्यभार संभाला।

जेएसओ / जेएमओ JSO/JMO 06 जून से 15 जून, 2022 तक प.ऊ.क.म. के डॉ. होमी भाभा सभागार में ग्रीष्मावकाश

में परमाणु ऊर्जा किनष्ठ महाविद्यालय, मुंबई में अभिविन्यास (JSO/JMO) दस इसमें भारत भर के 31 प.ऊ.के.विद्यालयों के और अनुरक्षण शिक्षकों ने प.ऊ.क.म. के समर्थन और संसाधनपूर्ण अकादिमक प्रवचन



आयोजित कनिष्ठ विज्ञान व गणित के दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों संकाय सदस्यों को उनके महान बुनियादी ढांचे के और प्रस्तुति के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद

व्यक्त किया। श्री ज्ञानेश्वर आर मोहरीर, उपप्राचार्य, प.ऊ.क.म. भी रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हुए । श्री प्रमोद तनपुरे (पीईटी एसएस) और डॉ धनुर्धर झा (स्नातकोत्तर शिक्षक, हिंदी) ने ग्रीष्मावकाश में परमाणु ऊर्जा किनष्ठ महाविद्यालय, मुंबई में आयोजित किनष्ठ विज्ञान व गणित के अभिविन्यास (JSO/JMO) कार्यक्रम में अपना योगदान देते हुए 15 जून, 2022 को समाप्त हुए दस दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों और मेहमानों को सभी सहायता और ढांचागत सहायता प्रदान की।

MSBHSE द्वारा MS बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद मार्च और अप्रैल, 2022 के महीनों में परीक्षा आयोजित की गई थी। ततः 17 जून, 2022 को विद्यार्थियों को अंकपत्र प्रदान किया गया।

वोकेशन शाखा (तीन शीर्ष रैंक धारक)




आशीष वायचल



आकांक्षा टंडले



ईशा देवांग





धुरी यश राजेश



शैली कुमारी महतो बाणिज्य शाखा (तीन शीर्ष रैंक धारक)



क्षितिज जाधव



दीपिका वेंकट सुब्रमण्यम



कशिश मनोहर वैती



फाल्गुनी ठाकोर

मानवता के लिए योग: प.ऊ.क.म. के होमी भाभा सभागार में ग्रीष्मावकाश में 21 जून, 2022 को आठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग



दिवस मनाया गया। श्री प्रमोद तनपुरे (पीईटी-एसएस) और श्रीमती स्नेहा गुप्ता (पीईटी) के निर्देशन में सभी ने योगाभ्यास किया 112बी के मास्टर जनमंजय वर्मा ने विभिन्न योग मुद्राओं को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आकर्षक बनाया।



यह महाविद्यालय के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत खुशी का क्षण था जब प.ऊ.क.म. मुंबई को 28 जून, 2022 को स्वच्छ

विद्यालय पुरस्कार के माध्यम से जिला स्तर की पांच सितारा श्रेणी से सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उन शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया जाता है जो विद्यालयों/क.म. में स्वच्छता की दिशा में प्रेरणा के श्रोत बनते हैं।



प्राचार्य के कार्यालय में 7 जुलाई, 2022 को परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि की पहली बैठक आयोजित की गई । यह बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें वित्त सत्र 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन हेतु विचार विमर्श किया गया ।

12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 9 जुलाई, 2022 को नए सत्र की पहली अभिभावक-शिक्षक-प्राचार्य बैठक आयोजित की गई। डॉ. होमी भाभा सभागार में 150 से अधिक अभिभावकों और विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक सुबह 9:30 बजे प्राचार्य के संबोधन से शुरू हुई और दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित स्थानों पर शिक्षक-छात्र-अभिभावक की आमने-सामने की बैठक तक चली। एमएस बोर्ड परीक्षा -2023 से पहले न केवल उनकी शैक्षणिक प्रगति बल्कि उनके सीखने के मूल्यांकन और शारीरिक-भावनात्मक स्वास्थ्य के संबंध में अपने बच्चों के प्रति माता-पिता की प्रतिक्रिया का आवश्यक मूल्यांकन करते हुए प.ऊ.क.महाविद्यालय के प्राचार्य ने ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया कि छात्रों को समय-प्रबंधन कैसे करना चाहिए।

मनोविज्ञान विभाग, भा.प.ऊ. अस्पताल के डॉ अदिति चौधरी और डॉ गिबी थरियाथु ने 31/07/2022 को प.ऊ.क.म.



के छात्रों के लिए 'यौन उत्पीड़न पर लिंग संवेदीकरण' पर जागरूकता व्याख्यान प्रस्तुत किया। बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग दो सत्रों में इस कार्यक्रम को विभाजित किया गया था। विद्यार्थियों के मन में आए हुए हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान किया गया। विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा।

10वीं कक्षा के छात्रों के लिए पऊशिसं क्षेत्रीय स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता : 12-08-2022 को प.ऊ.क.म. द्वारा क.म.



के डॉ होमी भाभा हॉल में प.ऊ.के.विद्यालयों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था। केंद्रीय कार्यालय द्वारा बहुत ही कम समय में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की योजना बनाने की मांग की। डॉ. आनंद कुमार, प्राचार्य, प.ऊ.क.म. न केवल संयोजक थे बल्कि कार्यक्रम के प्रश्नोत्तरी संचालक भी थे। सामान्य ज्ञान जैसे प्रश्नों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत ही आकर्षक थे।



राष्ट्रीय स्तर की अन्तर प.ऊ.शि.सं.प्रश्नोत्तरी : इसी प्रकार प.ऊ.शि.सं. के द्वारा तीन दीवसीय सूचना के आधार पर



प.ऊ.शि.सं. राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी भी प.ऊ.क.म. द्वारा उसी स्थान पर 25-08-2022 को आयोजित की गई थी। श्री पी. गोवर्धन, सचिव, प.ऊ.शि.सं. ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता की रोमांचकता एवं आकर्षकता के कारण सभाभवन तालियों की



गड़गड़ाहट से गूंजित था। प्रतियोगिता के दौरान दावेदारों प.ऊ.के.वि. तारापुर, जादूगुड़ा, कुडनकुलम और केंद्रीय विद्यालय (केवीएस) मानखुर्द ने सबसे प्रशंसनीय भावना दिखाई। प.ऊ.के.वि. तारापुर और प.ऊ.के.वि. जादूगुड़ा को क्रमशः विजेता और उपविजेता टीम घोषित किया गया।



76वां स्वतंत्रता दिवस परिसर में देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाया गया। दोनों कक्षा के छात्र ग्यारहवीं और बारहवीं

ने उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य, तिरंगा फहराने के साथ हुई, इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। भाषण व गीत प्रस्तुत किए। इस दिवस पर महाविद्यालय किया। ततः सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ



प.ऊ.क.म. द्वारा सुबह 8:15 बजे विद्यार्थियों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले के प्राचार्य ने सभा को सम्बोधित

प्रथमवर्षीय FYJC विद्यार्थियों का औपचारिक रूप से प.ऊ.क.म. परिवार द्वारा 12-8-2022 को स्वागत किया गया। उनकी सामान्य कक्षाएँ 16-08-2022 से शुरू हुईं।

हर वर्ष की भाँति विगत वर्ष भी प.ऊ.शि.सं. केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा कार्यवयन समिति द्वारा सभी विद्यालयों व



महाविद्यालयों के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए "हिन्दी फखवाड़ा-2021" के उपलक्ष्य में विविध प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं थीं । इनमें हिन्दी वक्तृत्व प्रतियोगिता "ख वर्ग" में श्री सुधीर खुल्लर, स्नातकोत्तर शिक्षक, प.ऊ.क.म. मुंबई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । वहीं पर हिन्दी निबंध प्रतियोगिता – "गैर-शिक्षक ख वर्ग" में श्री महेश एम. वालेन्द्र, प्रयोगशाला सहायक, प.ऊ.क.म. मुम्बई ने तृतीय स्थान प्राप्त किया । इन दोनों को 17-08-2022 को प्राचार्य, पऊकम के कर-कमलों से योग्यता

प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

इसके अलावा, प.ऊ.क.म. के नौ छात्रों और श्री प्रमोद तनपुरे, जिन्होंने बीएआरसी में आयोजित 76 वीं स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए मूल्यवान स्वैच्छिक सेवाएं दीं, को 17-08-2022 को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प.ऊ.क.म. के उन नौ छात्रों के नाम हैं: आकाश



रामचंद्रन, अश्वनी महेंद्र सिंह, आयुष मोरे, हरमब साल्वी, महावीर कुमार मीणा, प्रतीक जगताप, रजत चिकटे, सिद्धांत भुजबल और यश जावरे।

बारहवीं कक्षा के व्यवसाय, विज्ञान और वाणिज्य आदि सभी विषयों के लिए, 25/07/2022 से 28/07/2022 तक प्रति दिन दो बैठकों के आधार पर इकाई जाँच -1 आयोजित किया गया। इसी तरह UT-2 का आयोजन 25/08/2022 से 29/08/2022 तक किया गया। 28/09/2022 से कक्षा 11वीं व 12वीं के लिए क्रमशः इकाई जाँच 1 और अभ्यास जाँच 1 शुरू हुआ।

डॉ. सुगम कुमार, एसओ-एफ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवीजन, बीएआरसी द्वारा 27-08-2022 को 1300 बजे से 1500 बजे तक 'परमाणु संरचना' पर डॉ होमी भाभा सभाभवन, प.ऊ.क.म. में एक विशेष वार्ता प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में प.ऊ.क.म. और प.ऊ.के.वि.-4, मुंबई के ग्यारहवीं कक्षा के सभी छात्रों के साथ श्री पी. गोवर्धन, सचिव, प.ऊ.शि.सं. और डॉ. वी.पी. वेणुगोपालन, अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. मुंबई की गरिमामयी उपस्थिति रही। डॉ कुमार ने बातचीत के पहले भाग के रूप में शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी परमाणु संरचना पर एक सरल ग्रंथ प्रस्तुत किया। प्रस्तुत व्याख्यान से सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए।

इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ मेटल्स - मुंबई चैप्टर के मेटल्स एंड कन्वेंशन सेंटर में 27 अगस्त, 2022 को किया गया था। अश्विन नायर और 12 बी के जनमंजय के. वर्मा ने इस



मैटेरियल्स क्विज का आयोजन डीएई प.ऊ.क.म. के दो छात्रों- 12 डी के कार्यक्रम में भाग लिया।

29-08-2022 को प.ऊ.क.म.के परिसर में पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की 118वीं जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस-2022 का 11वां संस्करण बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्राचार्य, प.ऊ.क.म. द्वारा मेजर ध्यानचंद्र सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद, छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्य ने उस दिन के महत्व और पद्म भषण मेजर ध्यानचंद के योगदान के बारे में सुंदर विचार और भाषण प्रस्तुत किए। इसके साथ-साथ यह भी रेखांकित किया गया कि भारत के लिए कि उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को तीन स्वर्ण पढक जीतने में कैसे मढढ की।

राजभाषा हिन्दी : डॉ. आनंद कुमार, प्राचार्य व अध्यक्ष रा.का.स. की अध्यक्षता में राजभाषा हिन्दी पखवाडा-2022 को मनाने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम कार्यालय में हुई। डॉ. धनुर्धर झा, स्नातकोत्तर शिक्षक, द्वारारा दिनांक 01.09.22 से 14.09.2022 तक हिंदी प्रस्तुत किया गया। पखवाड़े के दौरान छात्रों के लिए

प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया ।



बैठक 30.08.2022 को प्राचार्य हिन्दी एवं राजभाषा प्रभारी के पखवाडा-2022 मनाने का प्रस्ताव हिंदी भाषण और निबंध लेखन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर, 2022 तक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। श्रीमती हेमामालिनी पीएन मेनन, स्नातकोत्तर शिक्षिका, वरीय वेतनमान, अंग्रेजी और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप प्रभारी द्वारा प्रातःकालीन सभा में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई।

इस वर्ष 61वां शिक्षक दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह 8:10 बजे आम सभा प्रार्थना-प्रतिज्ञा-विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई । इसके बाद भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन तथा भाषण और गीत प्रस्तुत किए गए। शिक्षक दिवस के दिन कक्षा



किया । कक्षा 12वीं के चयनित विद्यार्थियों द्वारा 11वीं के विद्यार्थियों को पढाया गया । महाविद्यालयीय कार्यक्रम का समापन सुबह 10:10 बजे हुआ। ततः सभी शिक्षक सुबह 10:20 बजे प.ऊ.शि.सं. के सामान्य कार्यक्रम को देखने के लिए नाभिकिय ऊर्जा भवन [एनयुबी] सभागार, एनपीसीआईएल गए।



नाभिकिय ऊर्जा भवन के सभागार में प.ऊ.क.म. द्वारा मेगा-इवेंट, शिक्षक दिवस समारोह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । विदित हो कि प.ऊ.क.म. के प्राचार्य ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक किया ।

सेवानिवृत्ति

श्री आर.एम. नागराजन, स्नातकोत्तर शिक्षक, वरीय वेतनमान, गणित तीस साल की समर्पित सेवा के बाद 30/04/2022 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 1992 में प.ऊ.के.वि.

योगदान दिया । बाद में उन्हें उसी वर्ष प.ऊ.के.वि. कैगा जहाँ उन्होंने 11 वर्षों तक यानी 2003 तक काम किया 4 और कनिष्ठ महाविद्यालय में 19 वर्ष सेवा की ।



रावतभाटा में अपनी प्रारंभिक में स्थानांतरित कर दिया गया, और वहाँ से उन्होंने प.ऊ.के.वि.-तत्पश्चात उनकी स्वर्णिम

सेवानिवृत्ति हुई । प.ऊ.शि.स. में उनका कार्यकाल अत्यधिक प्रशंसनीय रहा ।

श्री दत्ताराम जाधव, प्रयोगशाला सहायक - भौतिकी, 31 मई, 2022 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 04/01/1988 को प.ऊ.के.वि-2 में सर्वप्रथम योगदान देते हुए दस वर्षों तक काम किया । फिर वर्ष 1998 में प.ऊ.क.म. में स्थानांतरित हो गए और अपनी सेवानिवृत्ति तक यहाँ काम किया। प.ऊ.शि.स. में

उनका कार्यकाल प्रशंसनीय रहा ।

श्रीमती एल्सी पीटर स्नतकोत्तर शिक्षिका, वरीय वेतनमान, गणित, प.ऊ.क.म. मुंबई से 31/07/2022 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 28/06/1989 को प्र.स्ना.शि. के रूप में प.ऊ.के.वि. हैदराबाद में योगदान दिया था। अपनी पदोन्नति स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, महोदया ने 09/07/1992 से 26/04/1994 तक प.ऊ.के.वि. मनुगुरु में प्र. स्नातक शिक्षिका के रूप में कार्य



किया । फिर स्नातकोत्तर शिक्षिका के रूप में प.ऊ.क.म. हैदराबाद में स्थानांतरित हो गया और वहाँ 27/04/1994 से 09/02/2001 तक सेवा की। उनका अंतिम स्थानांतरण प.ऊ.क.म. हैदराबाद से प.ऊ.क.म. मुंबई में 10/02/2001 को हुआ। ततः तैंतीस वर्षों की असाधारण सेवा करने के बाद 31 जुलाई, 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति हुई।

श्रीमती जी विजयलक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ लिपिक 01-08-2022 को अपनी सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुईं। उन्होंने

27/07/1988 को प.ऊ.के.वि.-3, हैदराबाद में योगदान दिया। उन्हें 23-12-1991 को उसी केंद्र -की गई और बाद में, 29-06-1998 को प.ऊ.शि.सं. स्थानांतरण हुआ।



एलडीसी-सह-क्लर्क के रूप में अपना हैदराबाद में यूडीसी के पद पर पदोन्नति केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के भर्ती अनुभाग में

मुंबई के कई विद्यालयों के कार्यालय में उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य किया। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए मूंबई के कई विद्यालयों में उनका स्थानांतरण हुआ। वर्ष 2000 में AECS-1 में, वर्ष 2002 में AECS-2 में, अक्टूबर, 2005 में AECS-4 में, नवंबर, 2005 में AECS-5 में, अगस्त, 2012 में AECS-1 में और अंत में 16-10-2018 से 01-08-2022 तक प.ऊ.क.म. में विरष्ठ लिपिक के पद उन्होंने अपना अमूल्य योगदान देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली।

श्री कोम्पेला वेंकट कृष्ण शर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक, वरीय वेतनमान, मुंबई से 31/0/2022 को सेवानिवृत्त हुए। वे 17 जून, 1986 को प.स्ना.शि. के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें 30/09/1998 को कलपक्कम में स्नाकोत्तर शिक्षक के रूप में पदोन्नति पर स्थानांतरित फरवरी 2005 तक प्रतिनियुक्ति पर प.ऊ.के.वि. काकरापार में सेवा



रसायन विज्ञान, प.ऊ.क.म., प.ऊ.के.वि.-2, हैदराबाद में हैदराबाद से प.ऊ.के.वि.-2 किया गया । सितंबर 2004 से करते समय उनकी शिक्षण सेवा

न केवल समय पर बल्कि प.ऊ.शि.सं के लिए भी बहुमूल्य था। प.ऊ.के.वि-2, हैदराबाद में प्र.स्ना.शि. के रूप में नियुक्त हुए । ततः कलपक्कम, काकरापार, हैदराबाद और अंततः मुंबई जैसे विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक, वरीय वेतनमान के रूप में कार्यरत रहे । प.ऊ.क.म. से उनकी सेवानिवृत्ति हुई । विभिन्न प.ऊ.के.वि. और क.म. के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा उनकी अत्यधिक सराहना की गई।

स्थानांतरण



श्री रविकांत एस राठौड़, स्नतकोत्तर शिक्षक, वरीय वेतनमान, इलेक्ट्रॉनिक्स का प.ऊ.शि.सं. केंद्रीय कार्यालय की शैक्षणिक इकाई में स्थानांतरण हुआ । उन्होंने 22.08.2022 को प.ऊ.क.म. से मुक्त होकर प.ऊ.शि.सं. मुंबई में योगदान दिया ।

श्री ज्ञानेश्वर आर मोहरीर, उपप्रधानाचार्य की पदोन्नति प्रधानाचार्य के रूप में हुआ । ये प.ऊ.के.वि. तुरामडीह के प्राधानाचार्य के रूप में योगदानार्थ 24.08.2022 को प.ऊ.क.म. से मुक्त कर दिए गए ।



